

सही तैयारी, समयबद्ध पेंशन

प्रिय बीएसएनएल गुजरात सर्किल के वी.आर.एस. ऑप्टी,

अपनी पेंशन एवं जी.पी.एफ. के समयबद्ध भुगतान के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें –



क्या करें ?

१. अपनी सेवापुस्तिका को पूर्ण करवाने हेतु प्रयास करें और सुनिश्चित करें कि सेवापुस्तिका में निम्नलिखित सभी सूचनाएं उपलब्ध हो:-

- टाइमबाउंड पदोन्नति सम्बन्धित आदेश
- प्रशिक्षण सम्बन्धित पूर्ण जानकारी
- दिनांक 01.10.2000 के आगे के सभी वेतन निर्धारण (पे फिक्सेशन) ज्ञापन (मेमो)
- Presidential Order की प्रति
- पद आधारित वेतन वृद्धि (पोस्ट बेस्ड इन्क्रीमेंट) से सम्बंधित अंडरटेकिंग (जहाँ उपयुक्त हो)
- गुप - बी के अधिकारी जिन्होंने 01.10.2000 के उपरांत हुई प्रथम पदोन्नति पर IDA स्केल का चुनाव किया था उनके इन्डेमिटी बांड की प्रति
- टी.एस.एम. की अवधि एवं नियमितीकरण के आदेश की प्रति
- हड़ताल की अवधि का नियमितीकरण
- अवकाश अवधि की पूर्ण जानकारी

२. निम्नलिखित अपने कार्यालय में उपलब्ध करायें:-

- यूनिट ऑफिसर द्वारा प्रमाणित अपने जीवनसाथी के साथ एक मैट फिनिश वाला सयुक्त छायाचित्र (5.5*4 इंच)
- जिस बैंक से भी आप पेंशन एवम अन्य भुगतान लेना चाहते हैं उस बैंक से प्रदत्त एक ई.सी.एस. मैंडेट
- प्रमाणित स्पेसिमेन हस्ताक्षर एवम अंगूठे एवम उंगलियों के निशान
- डी.सी.आर.जी. , कम्प्यूटेशन, जी.पी.एफ. एवम पेंशन की बकाया राशि से सम्बंधित नामांकन फॉर्म
- अपने खाते का कैंसिल चेक अथवा अपनी पासबुक का अपने यूनिट ऑफिसर द्वारा प्रमाणित प्रथम पृष्ठ
- अपने यूनिट ऑफिसर द्वारा प्रमाणित अपना एवं अपने जीवनसाथी का आधार एवं पैन कार्ड
- डिस्क्रिप्टिव रोल

- फॉर्म ३ में परिवार सम्बंधित पूर्ण जानकारी
- पेंशनर डिक्लेरेशन
- एडवांस स्टाम्प रसीद
- जी. पी. एफ. भुगतान हेतु आवेदन पत्र, परिवार के सदस्यों की जानकारी एवं अंडरटेकिंग फॉर्म

३. भविष्य में संपर्क हेतु उपलब्ध कराये :-

- सेवानिवृत्ति के बाद आपका स्थायी पता
- ईमेल आईडी
- स्थायी मोबाइल नंबर

४. सुनिश्चित कर ले कि आपका नाम सेवापुस्तिका, आधार, बैंक अकाउंट एवं पैन कार्ड में एक ही है



क्या न करें?

- भविष्य में संपर्क के लिए अपना सर्विस कनेक्शन नंबर नहीं दें
- भविष्य में संपर्क के लिए अपने कार्यालय का ईमेल आईडी नहीं दें
- भविष्य में संपर्क के लिए अपने सरकारी आवास का पता नहीं दें



अधिक जानकारी हेतु संपर्क करे :

नियंत्रक संचार लेखा

गुजरात सर्किल

7th फ्लोर, पी एंड टी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, खानपुर

अहमदाबाद 380001



दूरभाष(टोल फ्री) 1800-233-0365



ईमेल:ccapension.guj@gmail.com